



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 363]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 10, 1981/कार्तिक 19, 1903

No. 363] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 10, 1981/KARTIKA 19, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

गृहमंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 1981

सा० का० नि० 585 (अ) :— केन्द्रीय सरकार, आयुध अधिनियम 1959 (1959) का 54 की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपनी यह राय होने पर कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है, राष्ट्रीय क्रीडा संस्थान, पटियाला को जिसका कैंप कार्यालय, राष्ट्रीय स्टेडियम, नई दिल्ली में स्थित है आगामी एशियाई खेल, 1982 के संबंध में हमसे उपाबद्ध अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट और निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उपयोग किए जाने वाले गोला-बारूद की बाबत अधिनियम की धारा 10 के प्रवर्तन से छूट देती है, अर्थात् :—

- (1) यह कि उक्त संस्थान उक्त गोला-बारूद के भर्जन, कब्जे और उपयोग के लिए उक्त अधिनियम के अधीन सम्बन्धित प्राधिकारी से उचित अनुज्ञात अधिप्राप्त करेगा,
- (2) यह कि संस्थान आयात किए गए गोला-बारूद का उचित लेखा रखेगा और जब कभी अपेक्षित हो सम्बन्ध के निरीक्षण के लिए मूसमय अभिलेख उपलब्ध करवाएगा, और

(3) यह कि संस्थान आयात किए गए गोला-बारूद का जिस प्रयो-
जन के लिए वह आयात किया गया है उससे भिन्न प्रयोजन के
लिए उपयोग नहीं करेगा।

अनुसूची

क्रम सं०	देश जिससे आयात किया गया है।	कारतूसों का नाम	मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मैसर्स म्यूनियोफि योछी, इटली	12 बोर कारतूस शाट गन (ट्रेप सं० 7)	10000
2.	मैसर्स म्यूनियोफि योछी, इटली	12 बोर कारतूस शाट (ट्रेप नं० 7) (स्कीट)	16000
3.	मैसर्स एले आईएम आई काइनाच लिमिटेड (यूके)	राइफल के लिए बोर लांगरेंज	100000
4.	मैसर्स एले आईएम आई काइनाच लिमिटेड (यूके)	विम्बोल के लिए बोर लांग रेंज	87000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	मेसर्स एले आई एम आई कास्टाय निमिट्रेड (यूके)	22 बोर शाटरेंज कारतूस		55000
6.	मेसर्स डाइनेमिट नोबल वेस्ट जर्मनी	12 बोर शाटरंगन कारतूस (ट्रेप 7)		52000
7.	मेसर्स डाइनेमिट नोबल वेस्ट जर्मनी	12 बोर शाटरंगन कारतूस (स्कीट)		30000
8.	मेसर्स डाइनेमिट नोबल वेस्ट जर्मनी	राइफल के लिए 22 बोर लॉगरेंज कारतूस		51000
9.	मेसर्स डाइनेमिट नोबल वेस्ट जर्मनी	राइफल के लिए 22 बोर कारतूस, शाटरेंज		25000
10.	मेसर्स डाइनेमिट नोबल वेस्ट जर्मनी	.32 वेडकटर		33500
11.	मेसर्स डाइनेमिट नोबल वेस्ट जर्मनी	.38 वेडकटर		10000
12.	मेसर्स डाइनेमिट नोबल वेस्ट जर्मनी	एयर पेलेट्स .177		228000

[सी० बी० 11016/9/81-जी० पी० ए० 5]

धार० एम० अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 1981

G.S. R. 585 (E):—In exercise of the powers conferred by section 41 of the Arms Act, 1959 (54 of 1959) the Central Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts National Institute of Sports, Patiala, having its Camp office at National Stadium New Delhi from the operation of section 10 of the said Act in respect of the ammunition to be used in connection with the forthcoming Asian Games, 1982, as specified in the Schedule annexed hereby and subject to the following conditions, namely:—

- (i) That the said Institute shall obtain proper licence from the appropriate authority under the said Act for the acquisition, possession and use of the said ammunition;

(ii) The Institute shall maintain proper accounts of the ammunition imported and shall make the relevant records available for inspections of the concerned licensing authority as and when required; and

(iii) The Institute shall not use the ammunition imported for any purpose other than for which it has been imported.

SCHEDULE

S. No.	Country of Import	Name of the cartridges	Qty.
1.	M/s. Gulio-Flo-chhi Italy	12 Bore Shot Gun Cartridges (Trap No. 7)	16000
2.	—do—	—do— (Skeet)	16000
3.	M/s. Eley IMI Kynoch Ltd. (UK)	22. Bore Long range cartridges for Rifle	100000
4.	—do—	.22 Bore Long range cartridges for Pistol	87000
5.	—do—	.22 Bore shot range cartridges.	55000
6.	M/s. Dynamit Nobel West Germany	12 Bore shot gun cartridges (Trap 7)	52000
7.	—do—	—do— (Skeet)	30000
8.	—do—	.22 Bore long range cartridges for Rifle	51000
9.	—do—	—do— shot range	25000
10.	—do—	.32 Wadcutter	33500
11.	—do—	.38 Wadcutter	10000
12.	—do—	Air Pellets.177	228000

[V-11016/9/81-GPA.V]

R. M. AGRAWAL, Jt. Secy.